

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 फरवरी 2016—माघ 26, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2016

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.— मध्य प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (कमांक 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा कृषि उपज मण्डी समिति मुंगावली एवं कृषि उपज मण्डी समिति चंदेरी जिला अशोकनगर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिये निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है :-

## कृषि उपज मण्डी समिति मुंगावली

1.	श्रीमति हरकुंवरबाई यादव	(पूर्व निर्वाचित)	अध्यक्ष/कृषक प्रतिनिधि
2.	श्रीमती कृष्णाबाई दांगी	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
3.	श्री दशरथ सिंह यादव	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
4.	श्री नारायण सिंह अहिरवार	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
5.	श्री शिवकुमार यादव	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
6.	श्री मथुरा सहरिया	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
7.	श्री बलराम दांगी	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
8.	श्री देशराज सिंह कटारिया ग्राम बामोरी तह.मुंगावली	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
9.	श्री चिरोजीलाल शर्मा ग्राम मथाना तह.मुंगावली	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
10.	श्री उदयभान सिंह पुत्र खिलन सिंह ग्राम चमराई तह. मुंगावली	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
11.	श्री सितेन्द्र कुमार जैन	(पूर्व निर्वाचित)	व्यापारी प्रतिनिधि
12.	श्री गोपाल अहिरवार	(पूर्व निर्वाचित)	तुलैया/हम्माल प्रतिनिधि

- |     |                                                                   |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13. | राज्य की विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो | (पदेन सदस्य) |
| 14. | सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि।                             | (पदेन सदस्य) |
| 15. | कृषि विभाग का एक अधिकारी।                                         | (पदेन सदस्य) |
| 16. | जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष।                            | (पदेन सदस्य) |
| 17. | जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष।                                  | (पदेन सदस्य) |
| 18. | ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य।           | (पदेन सदस्य) |

### कृषि उपज मण्डी समिति चंदेरी

- |     |                                                                    |                   |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1.  | श्री दिनेश मिश्रा तह.चंदेरी जि० अशोकनगर                            | (नाम निर्दिष्ट)   | अध्यक्ष / कृषक प्रतिनिधि    |
| 2.  | श्रीमती शांतिबाई अहिरवार                                           | (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि              |
| 3.  | श्री बलीसिंह लोधी                                                  | (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि              |
| 4.  | श्री शिशुपाल सिंह यादव                                             | (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि              |
| 5.  | श्री गेंदालाल नरवरिया ग्राम खैरा तह.चंदेरी                         | (नाम निर्दिष्ट)   | कृषक प्रतिनिधि              |
| 6.  | श्री नत्थूसिंह यादव ग्राम पाडरी तह.चंदेरी                          | (नाम निर्दिष्ट)   | कृषक प्रतिनिधि              |
| 7.  | श्री देवेन्द्र आदिवासी ग्राम विक्रमपुर तह. चंदेरी                  | (नाम निर्दिष्ट)   | कृषक प्रतिनिधि              |
| 8.  | श्री बारेलाल अहिरवार ग्राम महोली तहसील चंदेरी                      | (नाम निर्दिष्ट)   | कृषक प्रतिनिधि              |
| 9.  | श्रीमति कृष्णाबाई खटीक ग्राम महोली तहसील चंदेरी                    | (नाम निर्दिष्ट)   | कृषक प्रतिनिधि              |
| 10. | श्री नीलेश तिवारी नीलेन्द्र ग्राम रामनगर तहसील चंदेरी              | (नाम निर्दिष्ट)   | कृषक प्रतिनिधि              |
| 11. | श्री पदम कुमार जैन चंदेरी जि० अशोकनगर                              | (नाम निर्दिष्ट)   | व्यापारी प्रतिनिधि          |
| 12. | श्री संतोष कुमार रैकवार चंदेरी वार्ड न.10 जिला अशोकनगर             | (नाम निर्दिष्ट)   | तुलैया एवं हम्माल प्रतिनिधि |
| 13. | राज्य की विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो, |                   | (पदेन सदस्य)                |
| 14. | सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि।                              |                   | (पदेन सदस्य)                |
| 15. | कृषि विभाग का एक अधिकारी।                                          |                   | (पदेन सदस्य)                |
| 16. | जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष।                             |                   | (पदेन सदस्य)                |
| 17. | जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष।                                   |                   | (पदेन सदस्य)                |
| 18. | ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य।            |                   | (पदेन सदस्य)                |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2016

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 15th February 2016

No. D-15-6-2015-XIV-3.— In exercise of the powers conferred under sub section (4) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby constitutes the following Committee-in-charge for Krishi Upaj Mandi Samiti, Mungawali and Krishi Upaj Mandi Samiti, Chanderi District Ashoknagar till constitution of the committee through election.

### Krishi Upaj Mandi Samiti, Mungawali

- |                                                                               |                      |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1. Smt. Harkunvar Bai Yadav                                                   | (previously elected) | Chairman/ Farmer Representative    |
| 2. Smt. Krishna Bai Dangi                                                     | (previously elected) | Farmer Representative              |
| 3. Shri Dashrath Singh Yadav                                                  | (previously elected) | Farmer Representative              |
| 4. Shri. Narayan Singh Ahirwar                                                | (previously elected) | Farmer Representative              |
| 5. . Shri Shiv Kumar Yadav                                                    | (previously elected) | Farmer Representative              |
| 6. Shri Mathura Saharia                                                       | (previously elected) | Farmer Representative              |
| 7. Shri Balram Dangi                                                          | (previously elected) | Farmer Representative              |
| 8. Shri Deshraj Singh Kataria<br>Village Bamauri Tehsil Mungawali             | (Nominated)          | Farmer Representative              |
| 9. Shri Chironji Lal Sharma<br>Village Mathana Tehsil Mungawali               | (Nominated)          | Farmer Representative              |
| 10. Uday Bhan Singh<br>S/O Khilan Singh Village<br>Chamrai Tehsil Mungawali   | (Nominated)          |                                    |
| 11. Shri Sitendra kumar Jain                                                  | (previously elected) | Traders Representative             |
| 12. Shri Gopal Ahirwar                                                        | (previously elected) | Weighman and Hammal Representative |
| 13. A Member of Legislative Assembly of M.P. who is elected from the district |                      | (Ex-officio Member)                |
| 14. A representative from Marketing Society                                   |                      | (Ex-officio Member)                |
| 15. An Officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department     |                      | (Ex-officio Member)                |

- |                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 16. Chairman of District Central Cooperative Bank                             | (Ex-officio Member) |
| 17. Chairman of District Land Development Bank                                | (Ex-officio Member) |
| 18. A Member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat | (Ex-officio Member) |

### **Krishi Upaj Mandi Samiti, Chanderi**

- |                                                                               |                      |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1. Shri Dinesh Mishra                                                         | (Nominated)          | Chairman/ Farmer Representative    |
| 2. Smt. Shanti Bai Ahirwar                                                    | (previously elected) | Farmer Representative              |
| 3. Shri Bali Singh Lodhi                                                      | (previously elected) | Farmer Representative              |
| 4. Shri. Shishupal Singh Yadav                                                | (previously elected) | Farmer Representative              |
| 5. Shri Gendalal Narwariya<br>Village Kheran Tehsil Chanderi                  | (Nominated)          | Farmer Representative              |
| 6. Shri Nathusingh Yadav<br>Village Paderi Tehsil Chanderi                    | (Nominated)          | Farmer Representative              |
| 7. Shri devandera Adiwasi<br>Village Vikrampur Tehsil Chanderi                | (Nominated)          | Farmer Representative              |
| 8. Shri Barelal Ahirwar<br>Village Maholi Tehsil Chanderi                     | (Nominated)          | Farmer Representative              |
| 9. Smt. Krishanabai Khatik<br>Village Maholi Tehsil Chanderi                  | (Nominated)          | Farmer Representative              |
| 10. Shri Nilesh Tiwari Nilandera<br>Village Ramnagar Tehsil Chanderi          | (Nominated)          | Farmer Representative              |
| 11. Shri Padam Kumar Jain<br>Chanderi District Ashoknagar                     | (Nominated)          | Traders Representative             |
| 12. Shri Santosh Kumar Reakwar<br>Ward No.10 District Ashoknagar              | (Nominated)          | Weighman and Hammal Representative |
| 13. A Member of Legislative Assembly of M.P. who is elected from the district |                      | (Ex-officio Member)                |
| 14. A representative from Marketing Society                                   |                      | (Ex-officio Member)                |
| 15. An Officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department     |                      | (Ex-officio Member)                |
| 16. Chairman of District Central Cooperative Bank                             |                      | (Ex-officio Member)                |
| 17. Chairman of District Land Development Bank                                |                      | (Ex-officio Member)                |
| 18. A Member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat |                      | (Ex-officio Member)                |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.